



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2012/माघ 24, 1933

No. 43]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2012/MAGHA 24, 1933

वित्त मंत्रालय

(अधिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2012

**‘8 24 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2018’ की बिक्री  
(पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी**

फा स 4(4)-डब्ल्यू एण्ड एम/2011—भारत सरकार, एतद्द्वारा 3,000 करोड़ रुपए (अंकित) की कुल राशि के ‘8 24 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2018’ (जिन्हें इसके बाद ‘स्टॉक’ कहा गया है) की बिक्री अधिसूचित करती है। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे ‘विशिष्ट अधिसूचना’ कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना संख्या 4(13)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008, दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।

### 2 निर्गम की विधि

इन बॉण्डों की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 के माध्यम से तारीख 8 अक्टूबर, 2008 की सामान्य अधिसूचना संख्या 4(13)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008 के पैरा 5.1 में यथानिर्धारित तरीके से समरूप मूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए, मूल्य आधारित नीलामी द्वारा की जाएगी।

### 3 अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बालो देने की सुविधा की सलगन स्कीम (अनुबन्ध) के अनुसार, बिक्री की

अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

### 4 नीलामी का स्थान एवं तारीख

यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 द्वारा 17 फरवरी 2012 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलीया प्रक्रामित लन-देन प्रणाली (एनडीएस) संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 17 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलिया पूर्वाह्न 10 30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलिया पूर्वाह्न 10 30 बजे से अपराह्न 12 30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

### 5 कब निर्गमित कारोबार

यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘कब निर्गमित’ कारोबार के लिए पात्र होगा।

### 6 अवधि

यह स्टॉक 22 अप्रैल, 2008 से प्रारम्भ होकर दस वर्ष की अवधि के लिए होगा। इस स्टॉक की चुकोती 22 अप्रैल, 2018 का सममूल्य पर की जाएगी।

### 7 निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुम्बई कार्यालय में 17 फरवरी 2012 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 21 फरवरी 2012 अर्थात् निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर अर्जित ब्याज निर्गम की तारीख अर्थात् 22 अक्टूबर, 2011 से 20 फरवरी, 2012 तक शामिल होगा।

## 8. व्याज

अंतिम कृपण भुगतान की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर 8.24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर 22 अप्रैल और 22 अक्टूबर, को किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

शक्तिकान्त दास, अपर सचिव

अनुबध

### सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

**I. कार्यक्षेत्र** सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएगी। प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी।

**II. पात्रता** भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं।

1. जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं;

अपवाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंकों का उनके सौविधिक दायित्वों के दृष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।

2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं;

3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

अपवाद : ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एसजीएल खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

**III. व्यापकता** : उपर्युक्त शर्तों के अधीन "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर फर्मों, कम्पनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य कम्पनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है। बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपये के गुणजा में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है।

### IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

1. खुरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक सघटक

सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य होगा। कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन दिनांकित प्रतिभूति की किसी नीलामी में केवल एक बोली में भाग ले सकता है। इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना अपेक्षित होगा।

2. अपने ग्राहकों से प्राप्त पक्के आर्डर के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर एनडीएस सबधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में अपने ग्राहकों की ओर से एक एकल समेकित अप्रतिस्पर्धी बोली प्रस्तुत करेगा। असाधारण परिस्थितियों, जैसे एनडीएस प्रणाली में सामान्य पड़बड़ी को छोड़कर मौखिक रूप में अप्रतिस्पर्धी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।

3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भाराशित औसत दर पर होगी, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में साम्य आएगी। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डीलर को प्रतिभूतियां जारी की जाएगी।

4. ऐसे मामले में, जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा। आंशिक आबंटनों के मामले में यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें।

5. ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में लिया जाएगा।

6. प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसाकि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है। मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं है। अतः बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। बाद में निवेशक के अनुग्रेह पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपुर्दगी स्वीकार्य है।

7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करे। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियां का अंतरण निर्गम की तिथि से पांच कार्य-दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।

8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए छह पैसे प्रति सौ रुपये तक दलांती/कमीशन/मेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में

शामिल की जा सकती है या ग्राहको से अलग से वसूल की जा सकती है। ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा।

- 9 प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहको से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहको से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

V. बैंको और प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) द्वारा समय-समय पर मांगी गई योजना के तहत संचालन से संबंधित सूचना निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

VI ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तदनुसार जब भी आवश्यकता होगी योजना को संशोधित किया जाएगा।

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Economic Affairs)  
(BUDGET DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th February, 2012

**Auction for Sale (Re-issue) of '8.24 per cent Government Stock, 2018'**

**F No. 4(4)-W & M/2011.**—Government of India hereby notifies sale (re-issue) of '8.24 per cent Government Stock, 2018' (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of Rs. 3,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F No. 4(13)-W & M/2008, dated October 8, 2008 issued by Government of India.

**2 Method of Issue**

The Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400001 in the manner as prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F No. 4(13)-W & M/2008, dated October 8, 2008 by a price based auction using uniform price auction method.

**3. Allotment to Non-competitive Bidders**

The Government Stock up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (Annex).

**4. Place and date of Auction**

The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on

February 17, 2012. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS) on February 17, 2012. The non-competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 11.30 a.m. and the competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 12.30 p.m.

**5. When Issued Trading**

The Stock will be eligible for 'When Issued' trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

**6. Tenure**

The Stock will be of ten-year tenure commencing from April 22, 2008. The Stock will be repaid at par on April 22, 2018.

**7. Date of Issue and Payment for the Stock**

The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai Office on February 17, 2012. The payment by successful bidders will be on February 21, 2012 i.e., the date of reissue. The payment for the Stock will include accrued interest on the nominal value of the Stock allotted in the auction from October 22, 2011 to February 20, 2012.

**8. Interest**

Interest at the rate of 8.24 per cent per annum will accrue on the nominal value of the stock from the date of Last coupon payment and will be paid half-yearly on April 22 and October 22.

By Order of the President of India

SHAKTIKANTA DAS, Addl Secy

**ANNEX**

**Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities**

**I. Scope :** With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities it is proposed to allow participation on "non-competitive" basis in select auctions of dated Government of India (GoI) securities. Accordingly, non-competitive bids up to 5 per cent of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be within the notified amount.

**II. Eligibility** Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GoI securities will be open to investors who satisfy the following

1. do not maintain Current Account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

**Exceptions** Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

2. make a single bid for an amount not more than Rs. two crore (face value) per auction
3. submit their bid indirectly through any one bank or PD offering this scheme

**Exceptions :** Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks that maintain SGL Account and Current Account with the Reserve Bank of India shall be eligible to submit their non-competitive bids directly

**III. Coverage :** Subject to the conditions mentioned above, participation on "non-competitive" basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for dated stocks

#### IV. Other Operational Guidelines :

1. The retail investor desirous of participating in the auction under the Scheme would be required to maintain a Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. Under the Scheme, an investor can make only a single bid in an auction of a dated security. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.
2. Each bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents will submit a single consolidated non-competitive bid on behalf of all its constituents in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS). Except in extraordinary circumstances such as general failure of the NDS system, non-competitive bid in physical form will not be accepted.
3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.
4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), *pro rata* allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.
5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.

6. Security would be issued only in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (face value) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within five working days from the date of issue.

8. The bank or PD can recover up to six paise per Rs. 100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.

9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.

V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2012

**'8 79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2021' की बिक्री  
(पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी**

फा. सं. 4(4)-डब्ल्यू एण्ड एम/2011 (i) — भारत सरकार, एतद्वारा 6,000 करोड़ रुपये (अंकित) की कुल राशि के '8 79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2021' (जिन्हें इसके बाद 'स्टॉक' कहा गया है) की बिक्री अधिसूचित करती है। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना मख्या 4(13)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008, दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।

**2. निर्गम की विधि**

इन बॉण्डों की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 के माध्यम से तारीख 8 अक्टूबर, 2008 की सामान्य अधिसूचना संख्या 4(13)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008 के पैरा 5.1 में यथानिर्धारित तरीके से समरूप मूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी द्वारा की जाएगी।

**3. अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन**

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

**4. नीलामी का स्थान एवं तारीख**

यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 द्वारा 17 फरवरी, 2012 को संचालित की जाएगी। नीलामी हनु बानिया परक्रामित लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र प 17 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बानिया पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बानिया पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**5. कब निर्गमित कारोबार**

यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

**6. अवधि**

यह स्टॉक 8 नवम्बर, 2011 से प्रारम्भ होकर तेरह वर्ष की अवधि के लिए होगा। इस स्टॉक की चुकौती 8 नवम्बर, 2021 को सममूल्य पर की जाएगी।

**7. निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान**

नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुम्बई कार्यालय में 17 फरवरी, 2012 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 21 फरवरी, 2012 अर्थात् निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर अर्जित ब्याज निर्गम की तारीख अर्थात्, 8 नवम्बर, 2011 से 20 फरवरी, 2012 तक शामिल होगा।

**8. ब्याज**

मूल निर्गम की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर 8.79 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर 8 मई और 8 नवम्बर को किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,  
शक्तिकान्त दास, अपर सचिव

**अनुबंध****सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम**

**I. कार्यक्षेत्र :** सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएंगी। प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी।

**II. पात्रता :** भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :

1. जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं;

**अपवाद :** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।

2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं;

3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

**अपवाद :** ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एसजीएल खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

**III. व्यापकता :** उपर्युक्त शर्तों के अधीन "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर फर्मों, कम्पनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य कम्पनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है। बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपये के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है।

**IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश :**

1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य होगा। कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन दिनांकित प्रतिभूति की किसी नीलामी में केवल एक बोली में भाग ले सकता है। इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना अपेक्षित होगा।

462 GI/12-2

2. अपने ग्राहकों से प्राप्त पक्के आर्डर के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर एनडीएस संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में अपने ग्राहकों की ओर से एक एकल समेकित अप्रतिस्पर्धी बोली प्रस्तुत करेगा। असाधारण परिस्थितियों, जैसे एनडीएस प्रणाली में सामान्य गड़बड़ी को छोड़कर भौतिक रूप में अप्रतिस्पर्धी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भारांशित औसत दर पर होगी, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डीलर को प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।
4. ऐसे मामले में, जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा। आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें।
5. ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में लिया जाएगा।
6. प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसाकि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है। मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं। अतः बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपुर्दगी स्वीकार्य है।
7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करे। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण निर्गम की तिथि से पांच कार्य-दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।
8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए छह पैसे प्रति सौ रुपए तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में शामिल की जा सकती है या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है। ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा।

9. प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

V. बैंकों और प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) द्वारा समय-समय पर मांगी गई योजना के तहत संचालनों से संबंधित सूचना निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

VI. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तदनुसार, जब भी आवश्यकता होगी, योजना को संशोधित किया जाएगा।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2012

#### Auction for Sale (Re-issue) of '8.79 per cent Government Stock, 2021'

F. No. 4(4)-W & M/2011(i).—Government of India hereby notifies sale (re-issue) of '8.79 per cent Government Stock, 2021' (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of Rs. 6,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F. No. 4(13)-W & M/2008, dated October 8, 2008 issued by Government of India.

#### 2. Method of Issue

The Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400001 in the manner as prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F. No. 4(13)-W & M/2008, dated October 8, 2008 by a price based auction using uniform price auction method.

#### 3. Allotment to Non-competitive Bidders

The Government Stock up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (Annex).

#### 4. Place and date of Auction

The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on February 17, 2012. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS) on February 17, 2012. The non-competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 11.30 a.m. and the competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 12.30 p.m.

**5. When Issued Trading**

The Stock will be eligible for "When Issued" trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

**6. Tenure**

The Stock will be of ten-year tenure commencing from November 8, 2011. The Stock will be repaid at par on November 8, 2021.

**7. Date of Issue and Payment for the Stock**

The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai Office on February 17, 2012. The payment by successful bidders will be on February 21, 2012 i.e., the date of re-issue. The payment for the Stock will include accrued interest on the nominal value of the Stock allotted in the auction from November 8, 2011 to February 20, 2012.

**8. Interest**

Interest at the rate of 8.79 per cent per annum will accrue on the nominal value of the Stock from the date of original issue and will be paid half yearly on May 8 and November 8.

By Order of the President of India,  
SHAKTIKANTA DAS, Addl. Secy.

ANNEX

**Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities**

**I. Scope :** With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities it is proposed to allow participation on "non-competitive" basis in select auctions of dated Government of India (GoI) securities. Accordingly, non-competitive bids up to 5 per cent of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be within the notified amount.

**II. Eligibility :** Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GoI securities will be open to investors who satisfy the following :

1. do not maintain Current Account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

**Exceptions :** Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

2. make a single bid for an amount not more than Rs. two crore (face value) per auction.
3. submit their bid indirectly through any one bank or PD offering this scheme.

**Exceptions :** Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks that maintain SGL account and Current account with the Reserve Bank of India shall be eligible to submit their non-competitive bids directly.

**III. Coverage :** Subject to the conditions mentioned above, participation on "non-competitive" basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for dated stocks.

**IV. Other Operational Guidelines :**

1. The retail investor desirous of participating in the auction under the Scheme would be required to maintain a Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. Under the Scheme, an investor can make only a single bid in an auction of a dated security. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.
2. Each bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents will submit a single consolidated non-competitive bid on behalf of all its constituents in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS). Except in extraordinary circumstances such as general failure of the NDS system, non-competitive bid in physical form will not be accepted.
3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.
4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), *pro rata* allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.
5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.
6. Security would be issued only in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (*face value*) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within five working days from the date of issue.
8. The bank or PD can recover up to six paise per Rs. 100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.
9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.

V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2012

### '8.83 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2041' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

फा. सं. 4(4)-डब्ल्यू एण्ड एम/2011 (ii).—भारत सरकार, एतद्द्वारा 3,000 करोड़ रुपए (अंकित) की कुल राशि के '8.83 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2041' (जिन्हें इसके बाद 'स्टॉक' कहा गया है) की बिक्री अधिसूचित करती है। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना संख्या 4(13)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008, दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।

### 2. निर्गम की विधि

इन बॉण्डों की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 के माध्यम से तारीख 8 अक्टूबर, 2008 की सामान्य अधिसूचना संख्या 4(13)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008 के पैरा 5.1 में यथानिर्धारित तरीके से समरूप मूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी द्वारा की जाएगी।

### 3. अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

### 4. नीलामी का स्थान एवं तारीख

यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 द्वारा 17 फरवरी, 2012 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां परक्रामित लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 17 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

### 5. कब निर्गमित कारोबार

यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

### 6. अवधि

यह स्टॉक 12 दिसम्बर, 2011 से प्रारम्भ होकर तीस वर्ष की अवधि के लिए होगा। इस स्टॉक की चुकौती 12 दिसम्बर, 2041 को सममूल्य पर की जाएगी।

### 7. निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुम्बई कार्यालय में 17 फरवरी, 2012 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 21 फरवरी, 2012 अर्थात् निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आवंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर अर्जित ब्याज निर्गम की तारीख अर्थात् 12 दिसम्बर, 2011 से 20 फरवरी, 2012 तक शामिल होगा।

### 8. ब्याज

मूल निर्गम की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर 8.83 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर 12 जून और 12 दिसम्बर को किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

शक्तिकान्त दास, अपर सचिव

अनुबंध

### सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

I. कार्यक्षेत्र : सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएंगी। प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी।



**II. पात्रता :** भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :

1. जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (मीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं;

**अपवाद :** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा ।

2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं;

3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं ।

**अपवाद :** ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एस.जी.एल. खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे ।

**III. व्यापकता :** उपर्युक्त शर्तों के अधीन "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर फर्मों, कम्पनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य कम्पनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है । बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपये के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है ।

#### IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश :

1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (मीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य होगा । कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन दिनांकित प्रतिभूति की किसी नीलामी में कवल एक बोली में भाग ले सकता है । इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना अपेक्षित होगा ।
2. अपने ग्राहकों से प्राप्त पक्के आर्डर के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर एनडीएस संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में अपने ग्राहकों की ओर से एक एकल समेकित अप्रतिस्पर्धी बोली प्रस्तुत करेगा । असाधारण परिस्थितियों, जैसे एनडीएस प्रणाली में सामान्य गड़बड़ी का छोड़कर भौतिक रूप में अप्रतिस्पर्धी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी ।
3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भारांशित औसत दर पर होगी, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी । इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा

प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डीलर को प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी ।

4. ऐसे मामले में, जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा । आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें ।

5. ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में लिया जाएगा ।

6. प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा । भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसाकि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है । मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं । अतः बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा । बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपुर्दगी स्वीकार्य है ।

7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करे । असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण निर्गम की तिथि से पांच कार्य-दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा ।

8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए छह पैसे प्रति सौ रुपये तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं । ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में शामिल की जा सकती है या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है । ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा ।

9. प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी । यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए ।

**V. बैंकों और प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) द्वारा समय-समय पर मांगी गई योजना के तहत संचालनों से संबंधित**

462 GI/12-3

सूचना निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

VI. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तदनुसार, जब भी आवश्यकता होगी, योजना को संशोधित किया जाएगा।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2012

#### Auction for Sale (Re-issue) of '8.83 per cent Government Stock, 2041'

F. No. 4(4)-W & M/2011(ii).—Government of India hereby notifies sale (re-issue) of '8.83 per cent Government Stock, 2041' (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of Rs. 3,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F. No. 4(13)-W & M/2008, dated October 8, 2008 issued by Government of India.

#### 2. Method of Issue

The Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 in the manner as prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F. No. 4(13)-W & M/2008, dated October 8, 2008 by a price based auction using uniform price auction method.

#### 3. Allotment to Non-competitive Bidders

The Government Stock up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (Annex).

#### 4. Place and Date of Auction

The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on February 17, 2012. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS) on February 17, 2012. The non-competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 11.30 a.m. and the competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 12.30 p.m.

#### 5. When Issued Trading

The Stock will be eligible for "When Issued" trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

#### 6. Tenure

The Stock will be of thirty-year tenure commencing from December 12, 2011. The Stock will be repaid at par on December 12, 2041.

#### 7. Date of Issue and Payment for the Stock

The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai Office on

February 17, 2012. The payment by successful bidders will be on February 21, 2012, i.e., the date of issue. The payment for the Stock will include accrued interest on the nominal value of the Stock allotted in the auction from the date of issue i.e., December 12, 2011 to February 20, 2012.

#### 8. Interest

Interest at the rate of 8.83 per cent per annum will accrue on the nominal value of the Stock from the date of original issue and will be paid half-yearly on June 12 and December 12.

By Order of the President of India,  
SHAKTIKANTA DAS, Addl. Secy.

ANNEX

#### Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities

I. **Scope** : With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities it is proposed to allow participation on "non-competitive" basis in select auctions of dated Government of India (GoI) securities. Accordingly, non-competitive bids up to 5 per cent of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be within the notified amount.

II. **Eligibility** : Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GoI securities will be open to investors who satisfy the following :

1. do not maintain Current Account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

**Exceptions** : Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

2. make a single bid for an amount not more than Rs. two crore (face value) per auction.
3. submit their bid indirectly through any one bank or PD offering this scheme.

**Exceptions** : Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks that maintain SGL account and Current account with the Reserve Bank of India shall be eligible to submit their non-competitive bids directly.

III. **Coverage** : Subject to the conditions mentioned above, participation on "non-competitive" basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for dated stocks.

#### IV. Other Operational Guidelines :

1. The retail investor desirous of participating in the auction under the Scheme would be required to

maintain a Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. Under the Scheme, an investor can make only a single bid in an auction of a dated security. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.

2. Each bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents will submit a single consolidated non-competitive bid on behalf of all its constituents in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS). Except in extraordinary circumstances such as general failure of the NDS system, non-competitive bid in physical form will not be accepted.
3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.
4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), *pro rata* allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.
5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.
6. Security would be issued only in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main

SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (face value) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within five working days from the date of issue.
8. The bank or PD can recover up to six paise per Rs. 100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.
9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.

V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.